



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श०)  
(सं० पटना 550) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद  
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना  
24 फरवरी 2015

सं० 1620—श्री राम जानकी मंदिर (साहू मठ ट्रस्ट), गांजा चौक, मोतिहारी पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3069 है। इस न्यास का एक शाखा हनुमान गढ़ी, मोतिहारी भी है। पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-799 दिनांक 15.07.2009 द्वारा उपर्युक्त दोनों न्यासों (श्री राम जानकी मंदिर, गांजा चौक एवं हनुमान गढ़ी, मोतिहारी) के सुचारु प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। उक्त समिति के कार्यकाल का अवसान हो गया है।

पर्षदीय पत्रांक-1178 दिनांक 06.12.2014 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी से आग्रह किया गया था कि निवर्तमान न्यास समिति द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए विकासात्मक कार्यों के संबंध में जाँच कर एक प्रतिवेदन तथा नई न्यास समिति के गठन हेतु अधिकतम ग्यारह स्वच्छ छवि के सज्जनों का नाम भेजे। अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-01/गो० दिनांक 05.10.2015 द्वारा प्रस्तावित न्यास समिति के सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से विमर्शोपरान्त न्यास समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में श्री राम जानकी मंदिर गांजा चौक एवं हनुमान गढ़ी मोतिहारी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक नई न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम कानून) की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मंदिर (साहू मठ ट्रस्ट), गांजा चौक तथा हनुमान गढ़ी, मोतिहारी की परिसम्पत्ति की सुरक्षा, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री राम जानकी मंदिर (साहू मठ) एवं हनुमान गढ़ी न्यास योजना" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री राम जानकी मंदिर (साहू मठ) एवं हनुमान गढ़ी न्यास समिति होगा" जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
  3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
  4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
  5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
  6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
  7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
  8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
  9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
  10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
  11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
  12. श्री सोना लाल दास द्वारा मंदिर में पूजा-पाठ के बारे में निर्णय न्यास समिति स्वयं लेगी।
- पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी	—	अध्यक्ष
(2) श्री नरेन्द्र सिंह, राजाबाजार, मोतिहारी	—	सचिव
(3) श्री ददन राम, चमर पट्टी चौक, हेनरी बाजार, मोतिहारी	—	सदस्य
(4) श्री संजय कुमार रमण, नया अगरवा, मोतिहारी	—	सदस्य
(5) श्री महेश कुमार सिद्ध, बलुआ बाजार, मोतिहारी	—	सदस्य
(6) श्री उमेश, मोहता, हेनरी बाजार, मोतिहारी	—	सदस्य
(7) श्री ओमप्रकाश पाण्डेय, ठाकुरवाड़ी, मोतिहारी	—	सदस्य
(8) श्री श्याम बाबु राय, मठियाडीह, छत्तौनी	—	सदस्य
(9) श्री संजीव कुमार, आनन्दपुरी बेलबनवा, मोतिहारी	—	सदस्य
(10) श्री अखिलेश गुप्ता, मेन रोड, मोतिहारी	—	सदस्य
(11) श्री हरिशंकर ठाकुर, भवानीपुर जिरात, मोतिहारी	—	सदस्य

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 28.02.2015 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 550-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>